

Sanskrit





ا ب پ ت ث ج چ ح خ ر

ga da ka sha tcha gja tra 'to pa ba a

ز ر ژ ث س و ظ ط ف

da ca tta ta sa sa ja za ra

ع ف ک گ ل م ن ف ق و

wa ka fa na ma la ga qua ra aa

ژ ڙ ڻ ڻي (پ)
(medial) (final)
ya ya s-ha ka lla

باري ماري

پيشي مري

پيشي مري

Home Commet
Lavallois Capet

Prakma je te salua humblyment de tout cuer

ब्रह्माहीनमासि तह हृदं वरुंम

f

ब्रह्माहीनमासि तह हृदं वरुंम

et moi votre Tere eternal vous benis sur la terre

मे पदरुम्ये साक्षतः संसिषु मुमौ

2.f

मे पदरुम्ये साक्षतः संसिषु मुमौ

Seigneur roi de l'univers accorde nous ta grace

हेश्वरं दमष्टुहेनादो गणपाल ह्यम मारि

Mes obres enfants je vous en crid pour vous servir à jamais

पुत्रन्मेऽहो मरिये वाः सिहार्थं तवतः ॥ मारि

पुत्रन्मेऽहो मरिये वाः सिहार्थं तवतः

Dieu des lieux et de la terre tes enfants te servent à jamais

देवस्य ह्ये गिचि मुमौः पुत्रनेहल दन मेऽवतः

महादेवः



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ ह्रीं प्रणि यवन्मो न एतं क र्त्तु मे सर्वं नं सिद्ध सि

car en present en face, mon Sg. pour faire tout ce que tu desires.

ॐ ह्रीं द्वि नमे किं य द्र एं न देवोः द र्श्या मि ति य द

ॐ, ०! (quelle joie) mes illes / combien / heureux / suis je / ce jour ci, vous, je vois / aller en avant

ॐ ह्रीं द्वि नमे किं य द्र एं न देवोः द र्श्या मि ति य द

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ गुरुनाः सर्वहृदनाः एतु पवहुः मवनाः

mon instituteur notre, tout de cœurs notre, sommes contentes beaucoup Sings. notre

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ न द गच्छ मो मि त्र मे देव प षि ना दा द च यो गि न व र्वाः

alors allez, amis amis! Dieu! route! en avant en avant, et la Science
aidera vous.

ॐ

प्रिय त्र शै

32

३

ह्येते वाः प्रिय पुत्र मेत कश्चि कम्मं कुं राहुत तार्थं सुसंम

hatez vous chers enfants de moi si vous pouvez faire un bon desir pour
plaire moi.

मुमि नाम निष्ठाग्नौ देवा तस्य वी मुमि


मु एते मो मर्तल, वो एवमुप मुमि दे ला वु मर्तल

✧ वि चोचि मि मारुचि ममु एते इममर्तल

मुवि एते अमि ए दिव



CD




III

10

IVMLCD +

100 500 10



אבך לבק
primere

3-4-5

MDCCLXXVI

כל - בא - אב - לב
ten paren vent tent

לב לבק
ten hie de

כבאל
milliam 22

כב

כב דיין

כב דיין

Die veina des 22 letter, vout a parte le die de
notre Pire Diein.

नामि चानम्यात्रिगुणैर्देवदेवनमाशिष्टतै ।

Dans le nom

ष्टसेभद्रान्देवमेतकस्यवोःसर्वतांप्रशिषेदमुदि ।

Sept braves sur sept asins ou sept vaches, un tout rempli de savoir dans l'étude

प्रियमेदस्यमेवोःसहमनिपुसुसुहिसुदुसेवकलं
 सुसंत कृदुद

वदुंप्रियददानोःशैथ्येहेतलेहिनूपतेकचवद

Dans cette grande œuvre la bénédiction dans ce monde car la prière et elle va

naissance du jour... pas de viande en pain. Ablution avant de
commencer, et le corps Débaratte. Surveiller la table et le souper
avec un trait. Durant le repas, pour procéder aux cérémonies
avec le ~~me~~ ^{me}. L'œil droit ouvert.

ब्रह्मनमोऽस्तु

à la nouvelle lune ou point ou la lune paraît à sa 1^{ère}

Kaot Hoouie Lal Sing.

कुत्रामि
कृत्तम कवरमतव कर उरु त्व

कर बुद्ध, कवरिनन दे कृ et de
ग्राव abas.

उरु Paru. à l'ordure t

ल सिंग

Chiffre de la Langue Védique.

7 3/4

action contenant le Datan

ॐ र रा ^{marc} ^{data} ^{curj} मि सि ति म र यं । ३४

argent (मन) श्रुत्वा निमित्तं वलु लम्बितम् ।

ॐ र रा ^{Support} ^{Support} व र

ॐ र रा ^{presentant} ^{habitat} ग र रा

ॐ र रा ^{Docteur} ^{ouge} ट र रा

ॐ र रा ^{culvat} ^{attachement} ^{attaché} ^{culvatum} ^{intervenit} ह र रा ^{हमने} ^{culvatum} ^{ह र रा}

ॐ र रा ^{choix} ^{choisit} ^{ह र रा} (व र्थेन ^{choisit} व र्थेन ^{se})

ॐ र रा ^{Veneration} ^{Vandit} श र रा

ॐ र रा ^{attachement} ^{attaché} ह र रा

ॐ र रा ^{transit} ^{transit} त र रा

ॐ र रा ^{remission} ^{remittit} य र रा

ॐ र रा ^{Exhaustion} ^{Volat} ^(in l'air) र व र रा

ॐ र रा ^{Division} ^{Separation} ल र रा

ॐ र रा ^{mortification} ^{murtit} म र रा

۲۰ ۱۰۰۰ humanisation ۱۰۰۰- l'air humain

۵ ۱۰۰۰ Écoulement ۱۰۰۰- Coule.

۶ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ^{impudens} obtinuit ۱۰۰۰- l'air obtuse

۷ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰- remplissent ۱۰۰۰- remplis

۸ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰- horreum ۱۰۰۰- horce

۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ action ^{mouvent} ^{causes} ۱۰۰۰- agit acteur ^{فعل}

۱۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ action de ^{Scier} ۱۰۰۰- Scié.

۱۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ Étincellement ۱۰۰۰- Étincelle

۱۲ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ Roulement ۱۰۰۰- roule

३ न २ ॥ humanitation न १ ॥ ३

४ १ २ ॥ exaulement न २ ॥ ३

५ ३ १ ॥ ३ २ ॥ obscuriti न ३ ॥ ३

६ ५ २ ॥ simplification न ५ ॥ ३

७ ६ १ ॥ १ २ ॥ ३ १ ॥ ३
examen शब्द परामुख
कार्य शब्द

८ ७ २ ॥ action न ७ ॥ ३



९ २ २ ॥ action de न २ ॥ ३
sivre

१० ५ २ ॥ scintillation न ५ ॥ ३

११ १ १ ॥ roulement न १ ॥ ३

४	३३ टयॉल	॥	la puissance de la marche dans le oui et le non
५	३४ टयॉल	॥	du support
६	३५ टयॉल	॥	de la protection
७	३६ टयॉल	॥	de la direction
८	३७ टयॉल	॥	enlèvement
९	३८ टयॉल	॥	choix
१०	३९ टयॉल	॥	l'imitation
११	४० टयॉल	॥	soûlèvement
१२	४१ टयॉल	॥	traverse
१३	४२ टयॉल	॥	émission
१४	४३ टयॉल	॥	enveloppement
१५	४४ टयॉल	॥	separation

70	म र्चम	म	म	la puissance de la mortification d. l. o. et l. n.
7	न र्चम	न	न	l'humanisation
8	स र्चम	स	स	scandale
9	उ र्चम	उ	उ	obscurité
0	य र्चम	य	य	troublement
3	र र्चम	र	र	procurant
4	क र्चम	क	क	action
7	ख र्चम	ख	ख	action de science
8	ग र्चम	ग	ग	scintillation
9	घ र्चम	घ	घ	troublement



ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं

ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं
commencez le service le grand Dieu à jour le jour

ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं

ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं
tu as donné votre salut au monde

ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं

ॐ श्रीचंद्रौ कर्ममः महदेव देवतिक्षरं

ॐ

ॐ

ग्राधदै कर्ममः महदेव दीतिसहरम्

हर्ष एतः इहते प्रियगुरुं च्छन्मसु

ददां सिसवतः हिसहवद्रल प्रपुर्षिता दुन

गृहंसर्ष दकरामनिवोः मृथं मद्राम सतिस्तं

वडुच शडुकुत्र गन्यसे चकुत्र गामिष्यसे

उ. ग. दे. ग. ग. प.
इय नां

Vient ou non

ne vient pas

depend de l'avis

गच्छसिमे

गच्छसिमे

नागच्छसिमे

que voulez-vous ?

कैश्चिप्रियः

Je desire absolument vous parler

वैष्टमिच्छतुं वच्छ

Je suis heureux de le connaître

मृहीमद्रावाः मुद्रनां इय

Je suis heureux à vous connaître

मृहीमद्रावः मुद्रनां

ce jour et présent in car je content compteur superior que hier.

दिनष्टिंहीत्रपोतरुमयं ह्यः

ना.

a	ममरुणः	Immortalité	मस	verb. être	um
6	बमरुणः		बस	" maître	
9	गमरुणः		गस	" manger	
2	दमरुणः		दः	" prêter	
8	हमरुणः		हस	" être	
0	ओमरुणः		ओ वस	habiter	
3	इमरुणः		इस	naître	
hh	हुमरुणः		हुस	se moquer	
t	तमरुणः		तस	frapper	
L	यमरुणः		यस	apparaître	être en avant.

ज्ञान *essence*

वान *attaché*

मान *chanté*

दान *arrivé*

हान *trier*

वान *couffler*

शान *parier*

हान *blanc*

तान *étaler*

यान *aller et venir*

मान *parier*

लान *tailler*

मान *man*

नान *nan*

सान *san*

ऊान *uan*

पान *pan*

शान *shan*

कान *kan*

रान *ran*

que
उ.
क

समुद्रदेव

नरमधुमे यो कश्चिन्मनुष्योऽपि ज्ञानं मुनि

plus joie à me que soit a jansin sava in d'ivni la apprenen

नरमधुमे र

ॐ

ब्रह्म

माहत्र

माहाउ



मा ष

३

प्रहर्षी

धर्मर्षी

ज्ञा षी

माहर्षी

योगोर्षी

दिना षी

23
~~42~~



7

विद्यार्थी

7

कृशार्थी

20



2
3



afendeme
1/2

agab tam

U (U) 210 210 210

for the
the quite order

for the
the quite order


U (U) 210 210 210

Jabaton

1/2
1/2

mas in abendeme, here goes
here goes
man here

makend



above

man

Handwritten title in Urdu script: زبان و لہجہ

femme avec mauvais visage dur et mauvais humeur
zan-i, bad, sou-i, wa, bad, hou-

malade, fort avec l'opium dit
bina, schoua ba, schouka, goft
si, moi si mourrai, tri soi etant
agor, man, bi-nicam, tou, ham in

ainsi comment existes-tu? dit si non
tehoui ha-i rist, goft agor na

mourant si ainsi comment j'existe?
miri tehoui haam rist

Handwritten Urdu script with annotations: زبان و لہجہ (with 'union' and 'double' notes) and زبان (with numbers 1, 2, 3, 4 below it).

Handwritten Urdu script with annotations: زبان و لہجہ (with 'union' and 'double' notes) and زبان (with numbers 1, 2, 3, 4 below it).

आपि
and

एवच
et de même

ततः तेषु तथा
alors et alors et alors

आपिच
et aussi

एवच पुनरु
et de même encore

हि तथाहि
sur en effet

च
et

पुनरेवाच पुन एवच
~~पुनरेवाच पुनरेवाच~~
en effet

वा
mais

पुनरेवाच
पुन एवाच

वा तथावा
mais c'est ainsi en effet et

आपिवा
aussi bien

किंकिम् किंकिम्
ce sont ceux qui le qui et moi c'est pour moi

तस्मात्
c'est par conséquent

आपिवाच
et aussi bien

किंतु किंतु

तस्य
parce que

पुनरु
de nouveau

किंतु
cependant

तेन
pour cela

आपिवापुनरु
aussi bien encore

~~किंकिम्~~ खतैरु
~~किंकिम्~~ किंकिम्
tant qu'il

न नु
non pas

इति
ainsi

चैव च एव
parallèlement et aussi

ननु ननु
ne pas ne pas

इतिव इतिव

च इव चैव
एव चैव
comme

ननु
ne pas

इतिव
vérité comme

इति एत इति

इति
est dans

एव
de même

नाकिरु
ne faitis pas

यत् *que*

माकिरु
ne faitis absolument pas

यादिवा

मा *prohibitif*

नकिः
à moins que

यादि
si

यादिवापि

यद्यपि
si purifant

यत्सु
à cause de cela

~~यथा~~

यावत्
longue

तहि *donec*

तु *quod*


11

בב - ג' = בוכי
ou b. k' k' ou b
Evidences bien haut

36
22
20
כב

puissance unie

□ La terre Eau homme terre
○ Le ciel Etter air
|



כב = hak letter ככ 22.

□ Eau qui ^{nature} est la terre

| Terre humaine

○ air ciel

כבאל

• Feu Dieu

כבאל

La Puissance des 22 lettres

9 = 10 = 4 = 4 + 3 + 2 + 1 Dieu

7 = 6 = 3 + 2 + 1 = Homme.

कि कुरु काः पन्दि किञ्चन सखि सेनतत्

پنج قزو م پ ت ت
سز ر و ج ت ت سز

कौमुदी ३. २७

किञ्चन ३१ 46

अथ

३।३।

३।३।

union vicem double letter
३ ० ० ० ०

किं कुरु कः पदि ३ ० ० ० ०

किं ~~कुरु~~ कुरु कः पदि किं चना सर्व

हैनद ६।५।२।

how long it is a question
how long it is a question

किं कुरु कः पदि किञ्चन सर्व हैनद

tehi karona wa-tehi para tehi karona

pourquoi et sage quoi et sans

son djang, sta ulu tout quesi

३।३। ३।३। ३।३।

३।३। ३।३। ३।३।

३।३। ३।३। ३।३।

३।३। ३।३। ३।३।

बुद्ध द द द द द द द बुद्ध बुद्ध 33

संस्कृतं वाक् वदति संस्कृतं वाक् वदति 47

Sanskriti language parles tu ?

मूलपत्रवद्ध गुरोः प्रिय यं तुं लं बुद्ध कथं थः शिष्ये

Tu pas bonhomme guide à travers char.

शिष्ये न्मे च च

दधु वा संस्कृतं वाक् वदति

Sanskriti language parles tu

मूलपत्रवद्ध गुरोः प्रिय

यं तुं लं बुद्ध कथं थः शिष्ये न्मे

Depuis quand le temps apprend vous

Depuis quand le temps apprendes (autres vous d'élèves unigone d'élèves)

तन्मयं त्वं मासः कल बुद्ध मः वद

तन्मयं त्वं

Cela depuis 4 heures de temps. apprenons nous Seigneur

किं नमः किं नमः किं नमः

गुरुं किं नमः पुरं च हा गतं

le concepteur de toi quoi son nom Ville et ici et au vient-il ?

tel tel

तत्र

गुम्

गुरोः नमः हरिः प रि क ध रः पुर ए वो व यो

le gaurun motu le non

de la ville Bombay

गुरोः नमः हरिः प रि क ध रः पुर ए वो व यो ग र्थ ए व

de l'Agartha Cardinal dans l'aire

गुरोः नमः हरिः प रि क ध रः पुर ए वो व यो ग र्थ ए व

कथं बुद्धामि यन् गुम् ग्रसि बो व यि ए तत्र तम्

Comment s'ouvre-tu que ton guide de Bombay d'etre et cardinal

कथं बुद्धामि यन् गुम् ग्रसि बो व यि ए तत्र तम्

बध्नः च

च

दु

वक्त्र तत्र ए य इ ग्रपि त्म बुद्धिय इह तत्र मह गिर सुतनम्

Saigneur ala et ainsi mais connu lui avec sa science d'art plus avec grand honneur en l'ouest de la

वक्त्र तत्र ए य इ ग्रपि त्म बुद्धिय इह तत्र मह गिर सुतनम्

४
७
१
१

marie je desri

३५

मारि

मारि इष्टं इष्टं
मारोष्टं

verse desu

48

हितो यवत् एतम् कथम् शाकते विष्वग्गर्तत् गत् हित

७

~~पुस्तक~~

हितो यवत् एतम् कथम् शाकते विष्वग्गर्तत् हित गत्

parfait ainsi soit dit etc comment a l'el par etant d'etc de l'agatha

३५

हितो यवत् एतम् कथम् शाकते विष्व

३५

भाग ए शश्रस्तपुन्यसहनोः ब्रह्मा

• La magie est une arme vraie pour nous les Brahmanes

कः भाग गुह्य इति नन्मो मो सह उत्सर्गमनव्यार्थ

lors la magie son secret est pour cette raison avec le haut des lieux les enfants de manne font

यत् नन्मनुपुत्रां स्यात् सह कर्ष्यवदान्द्वोह स्वामिश्रोष्टः

Depuis manne du fils le serpent avec certains conversations ce Dieu sa main devenue malice, est

गुरुं ह्येतां च गुरुं गच्छेत् च ह्येतां गुरुं गच्छेत्

Euphonique

सुखं प्रियं सुखि

सुखाप्रियसुखि प्रियसुखिसुखा

bonne journée cher ami (connaitre)

bonheur / lumière allant trisorer ensemble partager
savourer en avant

सुखं हि निश्चये गुरुः

सुखं गुरुं हि निश्चये गुरुः

Elle bonne éminent mist à toi précepteur

Elle conduit le partage cela local / hauteur

मादेव मित्रं मे सा दृष्टं सा ह्यः

देव मित्रं मा ह्यं दृष्टं

vers bien

ancien mes amis au revoir à demain

vous donne le dire tout travailles supporte bon être

बुद्धं नित्येन वद मा सुसाक्षरं

बुद्धं नित्येन वद मा सुसाक्षरं

attention ne dites rien de cela

onche impie, aller à ta non courtoise rigide rien cela cela
sans leur prohibition Tabou visible

प्रियसखिसुद्यते

ॐ ३ ३

same

par la same

होय

त्रिम

वन

गुरुमहंसिनिखलपुते

शक्ति विक्ति

trin

तरामि

ॐ

voici - vous - ci

दैवमित्रणां वशं दृष्टं

हृ हृ

voici

हृवमस्मानं सख धर्मस्य सुहेतवोः सुततं

nous même sommes l'ami de la Justice comme patience notre conduite la justice à jamais

हृ हृ

हृवमस्मानं स ख धर्मस्य सुहेतवोः सुतथम्

Par notre patience et notre bonne conduite nous deviendrons l'ami de la Justice

धम्मननुं व्रह्ममस्यं वृष्टिमुनिं ज्ञाम्

sur le savoir d'une Brahme et celui d'un sage patient

ॐ श्रुतां प्रमथ सिध्यंत विगंसय सुखम्

O ciel sois attentif et écoute prière sollicitante je suis pour cause ces disciples unis en moi pour le bonheur

न गच्छि' म गच्छे' कस्मिन्ना गच्छे' न सुम्निहम्
ne pas va - toi défends à lui aller pourquoi non j'aille parce que défends vous n'avez
Sur quoi m'écrit-je pas allé. Parce que j'avais
pas voulu

हस्तिसुम्प्रतिददा कारुमिमाददम्

main tiens ensemble devant donne - main mienne hors pas j'ai donné

कुत्र गतेन मिबुधं संकुतः वतं चयते' शीला

d'on vent. il

et la Perfection de l'universel connaît d'aussi

~~नो~~ नो हतौ सह सुखेन वृमि' वदसिमे' साशयं

Langues tout d'un avec facilité d'articuler.

parles-tu moi quelque chose

तौ निहो हि जोहि नोहि

deux langues d'oreilles


किं थै वदमे' नयि' देवम् सुगतिं सुखं सुहमि

Dieu les cieus le maître j'appelle.

फिरिहन्सा रिशिनः दिशन्मे

Les Anges dans les étoiles connaissent mon nom.

ברשית



(ארא-שית)

बुरुषथ

בראשית ברא אל

אברהם
י אדוק

צ

רישון איליך ליכונסר ים מיכנ אעלי ליבונש
je partance de bord *pour Egypte* *la* *je monte* *à abouchouh*

ויאשוב שמה
et *jerush* *la*

Assyri.	Heb.	Source	Initials	Assyri.
א	א	थशाशि source	תשגז thushagatz	אברתם
ב	ב	महुद joie	מדהד muhasad	יצק
ג	ג	मःदप obitash	מזדש mavdash	עקב
ד	ד	यवश ^{sauvetage} salut	צב sabat	משה
ה	ה	थशाफ ^{Hauten} Elevation	תשפז thashaphal	אהרן
ו	ו	कफक amoro	קפק Kupak	דוד
ז	ז	बखि: salut	בכז bakhiath	שלמה
ח	ח	थरुमव: ^{auge} Sansuc	תכמבז thakumbaz	אליש
ט	ט	थरुमशाफ ^{Source}	תכמזפ thakamatjaf	אליהו
י	י	उलगम: Sansuc	עלגמז alagamatz	זכריה
יא	יא	दुर्म: ^{Source}	הוסמז huvamatj	צפניה
יב	יב	सरम ^{Source}	סרמ Saram-	חג

70194

מ 7 7 7 7

किं ष्टि सि क दु म ?

comment est la maîtresse de la maison ?

तं सु सु हा श सि ह ष्ट

très bien avec ta benediction jurista

प त्रां सि दे वो श कु त्र ष्ट

mariti tum qui Deum benisse aie est ?

त प रि षो गा च त

a Paris ville il est allé

ह स्त सि त कु स दं द मि

ta main que j'embrasse donne moi

म हू ह्यै स र्व त म् वा ष्ट

3e

स र्व त म् वा ष्ट

3e

व म न् मि त्र म् मे ग च्च वो

avec moi mes amis Venuy - Venuy

म द्र त गं टा ह्यै स ह तः स ह्यै स ह्यै

hauvny कथं etant moi toujours avec toi demeurer
bis combien

heyt a

ה"ת"א - itant

sara

סארא - madame

ota

א"ת"א - toi

kimmo

כ"מ"ו - comment

~~ה"ת"א - סארא - א"ת"א - כ"מ"ו~~

ה"ת"א - ה"ש" - ה"ת"א - כ"מ"ו

ה"ת"א

प न्न सि द द मि प्रिय

mean toni t'onne donne moi priere

~~किं कर्कं गं सि~~

किं कर्कं गं सि

qui faisont faire toi

पौ ह्नि व त्त वू द सि

La langue taitane paroles tu

मू ल प न व ह् व दं

par pas beaucoup je parle

वा दै प्रिय मि कि ष्च सि

parle donc cher mien qui desirer tu

~~म द्दं द म् व नः~~

प द न् द म् शि य नः

Tes pieds allonge lit sur

कः स र्ग त क र्ग स ह म्

qui t'et a toi faire avec moi

दु प त्ते क त्त क य स र म्

de mal toi ayant fait a ma tate

क लं षं सि रः

le temps est la se repasser


ह"त"א

7

8


citrou
mouvement inclinaison citrou

Egrees / compass / fit a / poland




a o m ϕ

hel hel



a o x ham m h r b a



abraham le grand maître fut arrivé de chaldée


यस्यै ह्यंमुमो एकस्यं कलिथानहदक्षीं खर्गकसु


ce que dans les temps, de même dans la terre est fait quels sont les choses ici bas qu'on voit dans les cieux ressemblant


मनां सुर्वीनाः कर्मा सुहदेवो नस्य सनतन

Esprit de l'homme dans toutes les œuvres avec son dieu etant avec lui à jamais en l'entier

5315








बेहनागशंवेद

La promesse divine - agarthema - journal

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز
 Zain Re Dhal dal cha hha gim the te be a
 ع غ ه و ن م ل س ق ف
 Ghain ain Ikhda Ila Ikhwad ssad schim sim
 عين ادف ه ه ن ن ن م ل س ق ف
 عين ادف ه ه ن ن ن م ل س ق ف
 शा क्रिन् ले पित गृ
 ॐ

5 temps d'adoration des Brahmaniques



1 2 3 4
gada-i bas daonwaga-i, tarangan
7 8 9 10
sapt, wa, sawal kasd: -

1 2 3 4 5 6
az andon-i kana djawab, amad
7 8 9 10 11
ki bibi, das kana mist

1 2 3 4 5 6
gada, - goft jawa-i nas, sawal
7 8 9 10 11 12
Kasda, bulam, ba na Kastam, K, cumis,
13 14
djawab, yaftam,

1 2 3 4 5 6 7
mendiant, dans pote ure richard fait
8 9 10
et demande a fait.

1 2 3 4 5 6 7
de l'entree sur maison repone veni que
8 9 10 11
dame dans maison n'est pas

1 2 3 4 5 6 7 8
mendiant repone pour une maison demande fait la dame
9 10 11 12 13 14
non si si bien que vous repone fait

osob - madura
korsch - galdi
ben - veur tot

sapa - galdi
venc en loupent

bibi - hadjak
Dame

hadjak Mousu
kan - sine

kana Kuncella (Puffis)

Dih hasti chahan

~~the kan~~ chah-an-chah
chahan Panah
Eln - mme

Chah-an chah vordis tot

Chahan Panah mme dya

پ ت ث ج چ ح خ د ز
pa ta tha ca ja too ta pa ba a

ز ر ژ س ن ط ظ د ذ ک
za ra ja ga ra sa ja ga ra

الله الا الاله
ha ya ka fa ga a na ma la ga

اب ب پ ق ک
be ba be bo ba be

deha kaus

ط ظ م ک ق ل ه ن ع غ ف ق ی ه
pissar - i

گاده پيسار پيسار
schaks - i

ق/آه بار لله رب
Das - tehack

مستاد
aam

کهاگهفت

ai passand - i aris - dja - i ne, raan - i tah - d'lon

بیاوام
Biaoram

un individu, son fils ^{passé} tout

dans un puits - cet individu

dit à son fils - oh! fils que

oh moi, ne pass pas de cette

place, attends moi assise

avec une corde et un

seau que j'apporterai

fils de individus un dans puits
 Pissat-i, Schaks-i, Tar-tehach, ~~et~~
 à ann schachs goft ay-dar-rand-i
 chui-ci / individus 'dit . 'oh! 'pourt d'entrées
 aris! dja-i na raou-i tar-Flou
 chéoi lieu de moi ne va pas jusque seu

wa-ran-biyarans
 et corde j'apporterai
 pauvre mendiant tout un deignement un
 Darnisch = i, ~~bertha~~ bar-hana, kadjab - i
 ai dit si moi dans l'enceinte
 ra goft ago mann ba dar - i

maisons de toi je mure d moi que
 hana-i miram, man tchi
 fous les dents a toi l'incant
 kioussi goft, touwa, kiapne

je ferais l'autel à moi dans
 kioussan goft man dar
 existence ce un habitement du le dos
 zindagi, jirahana; mischan
 et quand je mureas moi
 anatchoum birrissan, man

بسط # پيش طيب رفظ و كقط بر بسط طير مرا

وهدل تدا اسط لو بده

طيب بر و ندر كرك و كقط لوكده و ك و يبي و

طوبينه بر ان وهدل

سليم ط بسير قنر
شالان تے پوترا مے اھا کھنڈا میرا توں
Shalan te putra me iha anbanda mira to

شالان تے پوترا مے اھا کھنڈا میرا توں

embrasse approach bin tach schalorum
P W P B 7 D 1 5
Schak Kam imich

Schalorum tach bin kam schak
Shalan te putra me iha kuss matasi
imich

Sahit a to miri faly approach
embrasse to miri
سليم ط بسير قنر

Shalan te pissari kass matasi
سليم ط بسير قنر

सिद्धि तं द्व ददं मे पुन पुन सखी

हिदम् सिद्धि तं द्व ददं मे यक्प्रदु र्खी
हिदम्

पना पन्च वेदानेकसूत्रः

न ॥ न ॥

4m

• le point neutre
• substance

X १ ०

३ ५

X १ ० ० ३ ५

३ ५

३ ५ ३ ५ ३ ५ ३ ५

३

५

३ ५

३ ३ ३ ३ ३ ३

० १ ५

זכירה

זכירה / זכיר-הוא
Lui - appartient - à 59

~~זכיר-הוא~~
זכירה

זכיר-הוא

hou e' shi
Lui à appartient

זכירום לו בית קס ושק אימין

سلام طی پسر و فوس مادری!

हलमते पुत्रमे इह कुहमत्रति


cher च वीत.

Beauty cher ma dryer bus

~~प्रिय नमस्ते पुत्रमे इह कुहमत्रति~~

~~me Dues in beauty a~~

च वीत वीत:



59

60

61 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7


7 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7

7 - 7



הַיְדוּ

סנסודקאנדס הַיְדוּ

les Indes סנסודקאנדס

נאור/פלא

הַיְדוּ (הַיְדוּ) סנסודקאנדס

Ind-ustan

(Hind-ustan)

אל פנד - Ind -

הַיְדוּ (הַיְדוּ) Indes Ind

הַיְדוּ les Indes - les Indiens

מִיָּדָה terra

אֶרֶץ הַיְדוּ

earth

וע-55

בד

נַהַפְלִיט

Et il sort

23 - 7 - 1
sort de etc

23, 1

23

1 2 3 4 5 6 7
23






23


23

23

23

excellentement Jarva



Ô Maître de l'Univers & Protecteur de la terre
sainte , au nom de l'  moi, qui en
le tien & mes pensées sont à toi & en toi.
accordez-moi le  de ta sublime
bonté à titre d'un yoga Dwya en âme
& corps - de quel vœu je ne me départirai
jamais =

Om Sat tat, Brahma Vinnu eva isan
tè Ha - ri - Ho - Hra avoh!

4

23

no 67 B. Rue des Arts, London

